

प्रेस नोट दिनांक 21.07.2022
थाना बारादरी, जनपद बरेली ।

ऑनलाइन गाड़ी बुक कर लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश, लूटी गयी इनोवा कार बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बारादरी बरेली पर दिनांक 11.07.2022 को अरविन्द कुमार पुत्र रामदास निवासी म0नं0 29 सैनिक कालोनी संजयनगर बरेली द्वारा अपने इनोवा कार चालक आकाश पुत्र सुभाषचन्द्र निवासी श्री राधा कृष्ण सदन बन्द गली निकट हरिओम का तालाब करगैना बरेली के सम्बंध में थाना बारादरी बरेली पर गुमशुदगी रपट नं0 45 समय 15.13 बजे दर्ज करायी गयी थी। गुमशुदगी की जांच उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार द्वारा की जा रही थी। दौराने जांच साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 20.07.2022 गुमशुदगी को मु0अ0सं0 702/2022 धारा 364/392/120बी आईपीसी बनाम ब्रजेश आदि 05 नफर में तरमीम किया गया। जिसमें आज दिनांक 21.07.2022 को थाना बारादरी बरेली पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. ब्रजेश पुत्र सुल्तान सिंह निवासी उजईया फकीरपुर, थाना दन्नाहार, मैनपुरी 2. शिवचरन उर्फ डाक्टर पुत्र बालिस्टर निवासी ग्राम सूजापुर, थाना भोगाँव, मैनपुरी 3. सुमित चौहान पुत्र योगेश निवासी सिरावली चढावली, थाना हरदुआगंज, अलीगढ व घटना से लूटी गयी इनोवा कार नं0 यूपी 25 बीए 9000 को बरामद कर जनपद बदायूं से गिरफ्तार किया गया।

अपराध की कार्यप्रणाली/पूछताछ का विवरण:- शिवचरन उर्फ डाक्टर, ब्रजेश, सुमित, अरविन्द, गुरविन्दर कौर आपस में मित्र है। ये लोग योजना बनाकर योजना के अनुसार एक दूसरे से मोबाइल पर सम्पर्क करके षडयन्त्र के तहत गाडियां बुक कराते है और ड्राइवर का अपहरण कर उसे रास्ते में कहीं फेंक देते है या गिरा देते है और गाडी लूटकर औने-पौने दाम पर बेचते है। अभियुक्त अरविन्द द्वारा दिनांक 06.07.22 को ऑनलाइन इनोवा गाडी जिसका नं0 यू0पी0 25 बी0ए0 9000 मोबाइल नं0 - 8923696449 से बुक की गयी थी । गाडी को ड्राइवर आकाश चला रहा था, जिसको सुमित चौहान पुत्र योगेश निवासी सिरावली चढावली थाना हरदुआगंज जिला अलीगढ व गुरविन्दर कौर पुत्री दलवीर सिंह नि0 कथया गुडिया पूरन थाना पूरनपुर जिला पीलीभीत, दोनो लेकर बरेली से औरया पहुँचे । जहाँ पर अन्य साथी शिवचरन उर्फ डाक्टर पुत्र बालिस्टर निवासी ग्राम सूजापुर थाना भौगाँव जनपद मैनपुरी व अरविन्द पुत्र दाताराम नि0 ग्राम पीरपुर थाना बिछुआ जनपद मैनपुरी षडयन्त्र के तहत ड्राइवर आकाश उपरोक्त को नशीला पदार्थ खिलाकर थाना कोतवाली क्षेत्र जनपद औरया में सड़क के किनारे फेंक देना स्वीकार किया। जिसके सम्बंध में ड्राइवर की तलाश हेतु एक टीम जनपद औरया थाना बारादरी बरेली से रवाना है व गुमशुदा की बरामदगी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही अभियुक्तों के विरुद्ध अमल में लायी जायेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. ब्रजेश पुत्र सुल्तान सिंह निवासी उजईया फकीरपुर, थाना दन्नाहार, मैनपुरी
2. शिवचरन उर्फ डाक्टर पुत्र बालिस्टर निवासी ग्राम सूजापुर, थाना भोगाँव, मैनपुरी
3. सुमित चौहान पुत्र योगेश निवासी सिरावली चढावली, थाना हरदुआगंज, अलीगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना बारादरी बरेली।
2. का0 2110 सत्यप्रकाश थाना बारादरी बरेली।
3. का0 322 विपिन कुमार थाना बारादरी बरेली।
4. का0 1845 ओमकार थाना बारादरी बरेली।
5. का0 1224 धीरेन्द्र दांगी थाना बारादरी बरेली।
6. रि0का0 555 दीपांशु पोसवाल थाना बारादरी बरेली।